

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010—आश्विन 23, शक 1932

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र.-65-05-2010-तीन-2784.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नवगठित नगर पंचायत धामनोद, जिला रतलाम के माह अक्टूबर 2010 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			पाषद	पाषद	
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(6)
1	नगर पंचायत, धामनोद, जिला-रतलाम.	अध्यक्ष	-	-	गेन्दालाल भाभर
		पाषद	1	एक	कमलाबाई पति नागूलाल पोरवाल
		पाषद	2	दो	लक्ष्मीबाई-रणछोड़लाल
		पाषद	3	तीन	लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया
		पाषद	4	चार	सन्तोषबाई सॉवरिया
		पाषद	5	पांच	प्रहलाद भेरूलाल पाटीदार
		पाषद	6	छः	कटारिया प्रकाशचन्द्र-भेरूलाल
		पाषद	7	सात	रामकुँवरबाई-राधेश्याम पाटीदार (कुलम्बी)
		पाषद	8	आठ	सुशीला-चाँदमल सोनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	9	नौ	गणपत पिता भेरूलाल
		पार्षद	10	दस	अन्तु श्री कैलाशचन्द्र भाभर
		पार्षद	11	ग्यारह	बद्रीलाल पिता कालू
		पार्षद	12	बारह	कमला बाई पति जगन्नाथ
		पार्षद	13	तेरह	दल्लाबाई पति मांगू जी
		पार्षद	14	चौदह	मुकेश शर्मा (बबलु)
		पार्षद	15	पन्द्रह	मोहन पिता नरसिंह

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.